

# National Board of Examinations

## Department of Accreditation

### Notice

18<sup>th</sup> May 2018

#### **Sub: Hospital / Institute registration with Online Accreditation Application Portal (OAAP) – Regarding**

---

**Kind Attention:** Administrative Head, all NBE Accredited Hospitals/Institutions

National Board of Examinations has introduced an “*Online Accreditation Application Portal (OAAP)*” from year 2018.

It is mandatory for all NBE accredited hospitals / institutions to **get registered** with this portal so that any information / notices / circular / Status of applications (2018 onwards only) etc. pertaining to accreditation with NBE could be communicated through this portal. Annual Review of NBE accredited departments shall be undertaken 2018 onwards. This portal shall be the only window to complete the same. **The hospital / Institute already registered with OAAP need NOT register again.**

As per the sub-para no. 3.28 of Accreditation Information Bulletin – 2018:

*“The hospital can identify one of the hospital functionaries as the Single Point of Contact (SPOC) for the purpose of communicating with National Board of Examinations regarding accreditation related matters. The mobile number and email ID of Single Point of Contact (SPOC) ONLY shall be used by NBE to communicate with the hospital for all Accreditation related matters. National Board of Examinations shall not entertain communications from other email IDs/mobile numbers.”*

However, once the online registration process is completed, the applicant hospital can update/modify the details of SPOC later at any point of time under the “Update Profile” link of Online Accreditation Application Portal using the registered username & password of the hospital.

For registration, please refer quick link “Accreditation with NBE” on NBE Web site [www.natboard.edu.in](http://www.natboard.edu.in) or visit [www.accr.natboard.edu.in/online\\_user](http://www.accr.natboard.edu.in/online_user) . It is highly recommended to go through the 2018 Information Bulletin for Accreditation with NBE for details of the online registration process.

**The cut-off date for registration of Hospital / Institute with Online Accreditation Application Portal is 31<sup>st</sup> May 2018.**

For any further query / clarification / assistance, please write to NBE at email ID [accr@natboard.edu.in](mailto:accr@natboard.edu.in)

**National Board of Examinations**

**\*\*\*\*\***

\_\_\_\_\_

# राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड

## प्रत्यायन विभाग

### सूचना

18 मई 2018

विषय: ऑनलाइन प्रत्यायन आवेदन पोर्टल पर अस्पताल / संस्थान पंजीकरण - संबंधित

---

सूचनार्थ: प्रशासनिक प्रमुख, सभी एनबीई मान्यता प्राप्त अस्पताल / संस्थान

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने वर्ष 2018 से "ऑनलाइन प्रत्यायन आवेदन पोर्टल" प्रारंभ किया है।

इस पोर्टल पर पंजीकरण प्राप्त करना सभी एनबीई मान्यता प्राप्त अस्पतालों / संस्थानों के लिए अनिवार्य है ताकि प्रत्यायन विभाग से संबंधित किसी भी सूचना / परिपत्र / आवेदन स्थिति (केवल 2018 के बाद) को इस पोर्टल के माध्यम से ही संबंधित अस्पतालों / संस्थानों को सूचित किया जा सके। एनबीई मान्यता प्राप्त विभागों की वार्षिक समीक्षा 2018 से की जाएगी। यह पोर्टल इसे पूरा करने के लिए एकमात्र माध्यम होगा। अस्पताल / संस्थान जो उपरोक्त पोर्टल पर पहले ही पंजीकरण प्राप्त कर चुका है उसे फिर से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रत्यायन जानकारी बुलेटिन - 2018 - उप-पैरा संख्या 3.28 के अनुसार:

“अस्पताल, प्रत्यायन सम्बंधित मामलों के सन्दर्भ में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डों के साथ संवाद करने के उद्देश्य से अस्पताल पदाधिकारियों में से किसी एक को एकल संपर्क बिंदु (एसपीओसी) के रूप में मनोनीत कर सकता है। एकल संपर्क बिंदु (एसपीओसी) का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एनबीई द्वारा सभी प्रत्यायन सम्बंधित मामलों के लिए अस्पताल के साथ संवाद करने के लिए उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड अन्य किसी ईमेल आईडी / मोबाइल नंबरों से संवाद नहीं करेगा।“

हालांकि, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक अस्पताल, पंजीकृत उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन प्रत्यायन आवेदन पोर्टल के "अपडेट प्रोफाइल" लिंक के तहत किसी भी समय एकल संपर्क बिंदु (एसपीओसी) के विवरण को अद्यतन / संशोधित कर सकता है।

पंजीकरण के लिए, कृपया एनबीई वेबसाइट [www.natboard.edu.in](http://www.natboard.edu.in) देखें, फिर वेब साइट के "Accreditation With NBE" लिंक पर जाएं या [www accr.natboard.edu.in/online\\_user](http://www accr.natboard.edu.in/online_user) पर जाएं। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के विवरण के लिए एनबीई प्रत्यायन 2018 के सूचना बुलेटिन को संदर्भित करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है

ऑनलाइन मान्यता आवेदन पोर्टल पर अस्पताल / संस्थान के पंजीकरण के लिए कट ऑफ़ तारीख 31 मई 2018 है।

किसी और प्रश्न / स्पष्टीकरण / सहायता के लिए, कृपया ईमेल आईडी [accr@natboard.edu.in](mailto:accr@natboard.edu.in) पर एनबीई को लिखें

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड

\*\*\*\*\*